

## छपाई

Duration : 02.38

Transcribed words : 444

- संगीत -

दीपक कुमार छीपा : जैसा की हमारी कास्ट छीपा है, छीपा मीन्स छपाई करने वाले... छपाई का मतलब होता है टेबल के ऊपर छापने वाले... तो हमने, जैसे बचपन से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का हमारा काम है ये छपाई करने का... और हमने धीरे धीरे, बचपन से, जैसे हमारे दादा जी, हमारे पिता जी, उनके पिता जी, जैसे काम करते थे छपाई का, हमने उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुये हमने भी छपाई कार्य में जुड़ गये... पहला प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि कोरा कपड़ा खरीदा मार्केट में और ग्राहक की माँग के अनुसार हमने कपड़े को कट करना शुरू कर दिया... कट करने पर, जैसे कि कोई सात मीटर का माँगता है, कोई पाँच मीटर के, अपनी अपनी ड्रेस के हिसाब से कपड़े को कट करते हैं... कपड़े को वहाँ कट करने के बाद में कपड़े को फोल्ड करके उस कपड़े को पानी में भिगो देते हैं... पानी में भिगोने के बाद में इसमें अच्छी तरह से, कपड़े की माँग के अनुसार, कपड़े की माँडी / मांडी होती है वो अच्छी तरह से भीग जानी चाहिये... ये कपड़ा हो गया इस तरीके से, माँडी फूल गई... माँडी फूलने पर ये कपड़े को ये रख दिया और फिर दूसरे इस हाथों से, दूसरे दिन, दूसरे रोज, इसके अंदर सट्टे लगाते हैं, इसके अंदर, कपड़े के अंदर... इस तरह से हम सट्टे लगाते हैं कपड़े के ऊपर... कपड़े की अच्छी तरह माँडी निकल गई... माँडी निकालने के बाद में कपड़े को पानी में झकोल लेते हैं... धुलाई करे हुये पीस को हरड की डाई करते हैं... हरड / हरड़ की डाई लाल और काला छापने के लिये करते हैं... हरड का पेस्ट इसमें डाल करके और इसमें घोल लेते हैं... जब कपड़े को घोल करके और सूखा डिप करके निकाल देते हैं... सूखा देते हैं... सूखा देने पर जो हल्का दिखता है, हल्के में और जो नीचे जो कपड़ा रहता है, उसका पास गहरा आता है... गहरे पास के ऊपर से हम प्रिंटिंग करते हैं... जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हल्का, ये गहरा है और ये हल्का है... पीला करने के बाद में कपड़े को हम प्रिंटिंग में देते हैं... प्रिंटिंग में टेबल साढ़े पाँच मीटर लम्बा होता है... साढ़े पाँच मीटर की, इस भईया को मैंने कहा कि ये कपड़ा इस डिजाइन में प्रिंट करना है, तो ये प्रिंटिंग के लिये तैयार हो गया...

दीपक कुमार छीपा : हमारे काका जी हैं, पीछे जो टेबल पर छपाई कर रहे हैं... वो लाल और काले की छपाई कर रहे हैं... छपाई करने के बाद में जो कलर, फिनिश, तैयार होता है, वो ये आता है...